



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

१२ भाद्र १९४६ (श०)

(सं० पटना ८८२) पटना, मंगलवार, ३ सितम्बर २०२४

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश
३ सितम्बर २०२४

सं०२/ई३-२५८/२०१८ श्र०सं० १२६—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०सं०-३२०७९/२०१५ में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९४५ दि०-२७.०४.२०१७ के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-५८१ दि०-२४.०५.२०२१ द्वारा अनुशंसित निम्न भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक को अधिकतम उम्र सीमा को क्षांत करते हुए समूह-‘ग’ (कार्यालय परिचारी) के पद पर श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में वेतन स्तर-१ (१८,०००-५६,९००/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र० सं०	भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम	पति का नाम	जन्म तिथि	वास्तविक जाति/कोटि	अनुशंसित कोटि	गृह जिला	पदस्थापन का कार्यालय
१	२	३	४	५	६	७	८
१	कमल देवी	श्री शम्भुनाथ प्रसाद	२४.११.१९७५	BC-२	General	गोपालगंज	श्रम अधीक्षक का कार्यालय, सिवान

२. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

३. श्रीमती कमल देवी की समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जाती है (संकल्प सं०-९४५ दि०-२७.०४.२०१७ के कड़िका-‘घ’ के आलोक में)।

4. श्रीमती कमल देवी द्वारा योगदान के समय असेनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. श्रीमती कमल देवी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1919, दि०-18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायापता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दि०-31.08.2005 एवं पत्रांक-768 दि०-03.07.2007 के अनुसार उक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।

7. यह नियुक्ति संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह-‘ग’ के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों के आधार पर किया जा रहा है। यदि कोई प्रमाण-पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से भविष्य में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

8. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-581 दि०-24.05.2021 के निर्गत किये जाने की संपुष्टि सहायक निदेशक, जन शिक्षा निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1021 दि०-15.07.2024 द्वारा होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-2082, दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

10. श्रीमती कमल देवी पदस्थापित कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर समर्पित करेंगी।

11. श्रीमती कमल देवी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आदेश से,
रंजिता,
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 882-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>